

वश्व भर में हो रही है पर्यावरणवर्दों की हत्या

चर्चा में क्यों?

ऑस्ट्रेलिया के एक वश्वविद्यालय के अध्ययनकर्त्ताओं द्वारा कथि गए एक हालिया अध्ययन में यह बात सामने आई है कबिबते 15 वर्षों के अंतर्गत भारत सहति वश्व के 50 देशों में प्राकृतिक संसाधनों जैसे- भूमि, जंगल, पानी आदि की रक्षा करते हुए लगभग 1,558 लोगों की हत्या कर दी गई।

प्रमुख बदिु :

- यह अध्ययन 'नेचर सस्टेनेबिलिटी' (Nature Sustainability) नामक पत्रिका में प्रकाशति कथिा गया था।
- अध्ययन के अनुसार, उपरोक्त सभी मामलों में से मात्र 10 प्रतशित मामलों में ही अब तक सजा सुनाई गई है।
- प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के चलते होने वाली हत्याओं में से अकेले 39 प्रतशित हत्याएँ सरिफ ब्राज़ील में ही देखने को मलिी हैं।
- इसके अलावा फिलिपींस (Philippines), कोलंबिया (Columbia) और होंडुरास (Honduras) अन्य तीन ऐसे देश हैं, जहाँ वर्ष 2002 से 2017 के बीच 100 से ज्यादा पर्यावरणवर्दों की हत्या कर दी गई थी।
- मरने वाले लोगों में अधिकतर वकील, पत्रकार और पारंपरिक समुदाय के लोग ही शामिल हैं।
- पर्यावरणवर्दों की हत्याओं के अधिकांश मामले खनन उद्योग और कृषि वियवसाय से ही जुड़ी हुए थे।
- अनुसंधानकर्त्ताओं ने यह संकेत दथिा है कऱिन देशों में पर्यावरण-रक्षकों की मौत का आँकड़ा अधिक है जहाँ भ्रष्टाचार और कानूनों में लचीलापन ज्यादा है।

क्या कारण हैं इन घटनाओं के पीछे?

- अध्ययनकर्त्ताओं के मुताबकि, भ्रष्टाचार और कानूनों को लागू करने में लचीलापन ही इन घटनाओं के प्रमुख कारक हैं।
- पर्यावरण की रक्षा करना कसिी युद्ध क्षेत्र में कार्यरत होने से भी ज्यादा घातक हो गया है।
- सामान्यतः यह देखा जाता है कऱि संसाधनों का उपयोग करने के कानूनी अधिकार न होने के बावजूद भी कंपनयिों या अन्य लोगों द्वारा उनका दोहन करने के कारण ही ऐसे वविाद उत्पन्न होते हैं।
- कई अन्य वविादों में यह भी देखा गया है कऱि राष्ट्रीय उद्यानों या समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण के नाम पर वहाँ के पारंपरिक नवासयिों को उस क्षेत्र से अलग कर दथिा गया है।
- केन्या के स्वदेशी सेंगवर (Sengwar) समुदाय के लोगों को उनकी पारंपरिक भूमि से अलग करने का वविाद इस संदर्भ में प्रमुख उदाहरण है।

स्रोत: द हट्टि (बज़िनेस लाइन)